



HZL/2024-SECY/

January 22, 2024

BSE Limited P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Kind Attn: - General Manager, Dept. of Corporate Services

## Scrip Code: 500188

Dear Sir(s),

# <u>Sub: - Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015 (Copies of Newspaper Advertisement of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Third Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 of the Company</u>

In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements relating to approval of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2023 of the Company, published on January 20, 2024 in below newspapers:

Sr. No.	Newspaper	Edition
1	1 Business Standard All editions	
2	2 Rajasthan Patrika Udaipur	
3	Dainik Bhaskar	Udaipur

The aforesaid results are also available on the Company's website <a href="https://www.hzlindia.com/home/">https://www.hzlindia.com/home/</a>.

Request you to take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully

For Hindustan Zinc Limited

Harsha Kedia Company Secretary and Compliance Officer Encl: as above



# **PM Modi unveils Boeing** global engg, tech centre

The campus, spread across 43 acres, is built with an investment of ₹1,600 cr

## PEERZADA ABRAR Bengaluru, 19 January

Princhart and the second secon

Ine campus is boeing s largest such investment out-side the US. It will become a cornerstone for partnering with India on next generation products and services for the global aerospace and defence industry. Modi said Decredes is a diruthick light industry. Modi said Bengaluru is a city which links Bengaluru is a city which links aspirations to innovations and achievements, and India's tech potential to global demands. "Boeing's new tech-nology campus is going to strengthen this bellet," said Modi. Ife underlined that its scale and magnitude will not only strengthen India but also the aviation market of the world. Modi said this facility demonstrates India's commit-

the advantation of the second second

of employees in any country outside the US. It has more

THIS CAMPUS REINFORCESTHE

WORLD'S TRUST IN Prime Minister Narendra Modi and Karnataka Chief Minister K Siddaramaiah during the inauguration of the state-of-the-ar BIETC campus, in Bengaluru on Friday PHOTO: P INDIA'S TALENT. INDIA WILLONE DAY DESIGN AIRCRAFT Minister Siddaramaiah, and Boeing chief operating officer Stephanie Pope, among **OF THE FUTURE** 

A Construction of the constructio

to foster arcspace innovation sector. To foster arcspace innovation sector. To foster arcspace innovation sector. For young girls, the pro-Calhoun, Boeing president gramme will create labs at ISO and chief executive officer (CEO). The prime minister was the programme will also pro-pioned by Karnataka Governov did scholarships to women Thaawar Chand Gehlot, Chief

No delay in deliveries to India, says Boeing

 RUTES
 adding even more scruting in the quality side of things, barnen fluids, locing? vice
 India's travel boom, with a greater focus on international market with a duality side of things, barnen fluids, locing? vice
 India's travel boom, with a greater focus on international market with a duality side of things, barnen fluids, locing? vice
 India's travel boom, with a greater focus on international market withing side at the Wings india air shown in Hyderabad. Hulls said Boeing desine an Abas india air shown in Hyderabad. See any meaningful delays in divise the planemaker's GTD panel on a 737 MAX 9 jettlew
 India's the market withing bar of crashes killed and the the incident.
 India's the market withing bar of crashes killed at the weart within ha pair of crashes killed as a they market the most of single customer that oper the said at the weart within ha pair of crashes killed as they market the most of single customer that oper the said at the weart within ha pair of crashes killed as they market the most of single customer that oper the said at the weart withing has they market the most of single customer that oper the said with the said at the weart withing a sait weart weart withing the said at the weart withing the said waart weart weart weart withing the said waart weart weart withing the said waart weart weart

Manner of Sale



Make in India

a win-win

tor, salumour,	(Vili) Total Debts to Total Assets (In times)	0.30	0.32	0.13	0.30	0.13	0.33
urating US giant Boeing's	(ix) Long Term Debt to Working Capital (in times)	4.44	3.62	0.19	4.44	0.19	**
neering and	** Net working capital is negative						
centre campus ru. Modi also		24	a			the Board	
ut the governm –	Date: January 19, 2024		Constant of		Arun Misra CEO & Who	le-time Dire	ctor
on investment	i laboi badipai				Lo u mio		0101
vity infra-							
andicap of poor							
y that was							
India's potential							
PEERZADA ABRAR							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
-	and a start day and	•	्र Central	र्वक ऑफ़ हॉडि Bank of Ind	खा ïa		
	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O		ı A anzās film "Brigs" -				~
-		YOUR FINAN					THE
	CA/CS/CMA	HEME FOR	R FINAN	E PRO	FESSI01	NALS!	
					of Finance		
	Term Loan / Overdraft CA/CS/CMA	inance Professior	nals:	Rs 200.00 la Maximum -	kh with secur Re 50 lakh wi	ity. th CGTMSE Co	ver
No.		010.		waxintuni -	Ho oo lakii wi		an ass
	Purpose:				e Rate of i	interest	Condition
- YIM	To build / acc	quire office premi:	ses	<u>@ 8.50%</u>			Arms &
	and a second state of the			11.1		1	

Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2023

														(₹ in Lakh)
~					Sta	indalone					Conso	olidated		
Sr No	Particulars			Quarter Ender	1	Nine Mon	ths Ended	Year Ended		Quarter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended
NU			31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
			Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Opera		9,13,893	8,41,192	7,63,571	25,73,477	21,05,815	29,62,560	9,17,116	8,43,851	7,66,559	25,82,769	21,14,591	29,74,159
2	Net Profit/(Loss) for the p (before Tax, Exceptional Extraordinary items)		1,10,903	56,310	81,143	2,69,712	1,74,219	2,64,534	1,12,900	58,049	82,829	2,81,455	1,82,551	2,75,148
3	Net Profit/(Loss) for the p before Tax (after Excepti Extraordinary items)		1,10,903	56,310	81,143	2,69,712	1,74,219	2,64,534	1,12,900	58,049	82,829	2,81,455	1,82,551	2,75,148
4	Net Profit/(Loss) for the p after Tax (after Exception Extraordinary items)		71,786	60,543	45,822	1,74,172	1,01,117	1,58,220	73,447	62,195	47,347	1,85,139	1,08,778	1,67,878
5	Total Comprehensive Inc Period [Comprising Profit for the Period (after Tax) comprehensive Income (	t/ (Loss) and other	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3	Refer Note 3
6	Paid up Equity Share Ca (Face value of ₹ 10/- pe		8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094	8,68,094
7	7 Reserves (excluding Revaluation Reserves)						1.1	16,77,838			-			16,88,621
8	8 Securities Premium Account		7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663	7,46,663
9	Net Worth		27,23,227	26,50,069	24,86,214	27,23,227	24,86,214	25,44,941	27,44,086	26,69,269	24,94,110	27,44,086	24,94,110	25,54,832
10	Paid up Debt Capital/Out Debt (%)	Istanding	13.06%	23.68%	29.21%	13.06%	29.21%	30.79%	12.93%	23.36%	28.70%	12.93%	28.70%	30.00%
11	Outstanding Redeemable Shares	e Preference						-				-		
12	Debt Equity Ratio		0.29	0.22	0.23	0.29	0.23	0.14	0.29	0.23	0.24	0.29	0.24	0.14
	Earning Per Share (for ₹ 10/- each )	1. Basic	0.83	0.70	0.53	2.01	1.16	1.82	0.85	0.72	0.55	2.13	1.25	1.93
13	(For Continuing and Discontinued operations)	2. Diluted	0.83	0.70	0.53	2.01	1.16	1.82	0.85	0.72	0.55	2.13	1.25	1.93
14	Capital Redemption Res	erve												
15	Debanture Redemption F	Reserve				-		-						
	Debt Service Coverage F Interest Service Coverage				NOT A	PPLICABLE					NOT API	PLICABLE		
Note	1: The above is an extract The full format of the Q 2: For the other line items	of the detaile uarterly/Nine	Months Financ	ial Results are	available on the	websites of the S	tock Exchange(s)	and the listed en	tity. [www.bseii	ndia.com, www	.nseindia.com	and www.cent	ralbankofindia	.co.in]
	on the URL (www.bsei	ndia.com, w	ww.nseindia.co	om].	., .						ind National St	ock Exchange o	r India Ltd) and	can be accessed
	3:Information relating to									k.				
Vote	4:Figures of the previous	periods have	i been regroupe	ed/reclassified v	herever conside	ered necessary to	conform to curre	nt period classific	ation.					
	ce : Mumbai e : January 19, 2024	E	Vivek Wa xecutive Di				li Krishna e Director			dra Dohare live Director		Ma	M.V. F anaging Dire	
	Toll	State : January 19, 2024         Executive Director         Executive Director         Managing Director & CEO           Toll Free Number 1800-22-1911         www.centralbankoffindia.co.in   Follow us on: 1 @ Managing Director & CEO         Managing Director & CEO           #Give a missed call for Loan: 922 390 1111         #Give a missed call for Loan: 922 390 1111         Managing Director & CEO												

**COMPANIES 3** 

(Z)

HINDUSTAN ZING

PARTICULARS Quarter ended Nine Months ended Year ended								
PARTICULARS		uarter ende				Year ended		
	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total income from operations	7,606	7,014	8,214	22,184	26,614	35,477		
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288		
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288		
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,028	1,729	2,156	5,721	7,928	10,511		
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,022	1,688	2,134	5,703	8,002	10,552		
Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845	845		
Reserves	12,298	12,810	26,016	12,298	26,016	12,087		
Net Worth	13,143	13,655	26,861	13,143	26,861	12,932		
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	10,111	11,324	5,104	10,111	5,104	11,841		
Debt Equity Ratio	0.77	0.83	0.19	0.77	0.19	0.92		
Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations								
Basic :	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88		
Diluted:	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88		
Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	1.34	67.34	3.61	15.85	17.65		
Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	13.89	67.34	15.06	95.45	60.07		

HINDUSTAN ZINC LIMITED

Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004 PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com NT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2023

co : above consolidated results of Hindustan Zinc Limited('the Company') and its subsidiaries ('the Group') for the quarter and this ended December 31, 2023 have been reviewed by Audit & Risk Monagement Committee and approved by the Boa tors in its meeting held on January 19, 2024 and have been subjected to a limited review by the statutor auditors of the subscience 1) The

#### 2) Key Standalone Financial information:

🐞 vedanta

11

13

PARTICULARS	(	Duarter ende	d	Nine Mon		(₹ in Crore Year ended	
PARTICULARS	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023		31.03.2023	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total income from operations	7,615	7,023	8,215	22,207	26,615	35,48	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,29	
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,29	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,038	1,737	2,157	5,745	7,931	10,52	
Company's website www.hzlindia.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S		-					
Company's website www.hzlindia.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015:	ecurities and	Exchange	Board of Ind	dia (Listing C	Obligations ar	nd Disclosu	
Company's website www.hzlindia.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S	ecurities and	Exchange I	Board of Ind	dia (Listing C	obligations ar		
Company's website www.hzlindia.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS	ecurities and	Exchange I	Board of Ind	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023	bligations ar ths ended 31.12.2022	nd Disclosu Year ende 31.03.202	
Company's website www.hzlindia.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS Operating margin (%)	ecurities and 31.12.2023	Exchange I Duarter ende 30.09.2023	Board of Inc d 31.12.2022	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35%	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	nd Disclosu Year ende 31.03.202 42	
Company's website www.hzilindia.com. Additional disclosures as par Requiation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS Operating margin (%) Net Profit: margin (%) Bad debts to Account receivable ratio (%) (not	ecurities and 31.12.2023 36%	Exchange I Quarter ende 30.09.2023 34%	Board of Ind <u>d</u> <u>31.12.2022</u> 37%	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35%	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	nd Disclosu Year ende 31.03.202 42	
Company's websile www.hclindia.com. Addunad ids/courses as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: <b>PARTICULARS</b> <b>Operating margin (%)</b> Net Profit: margin (%) Bad debts to Account receivable ratio (%) (not annualized)	ecurities and 31.12.2023 36%	Exchange I Quarter ende 30.09.2023 34%	Board of Ind <u>d</u> <u>31.12.2022</u> 37%	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35% 27%	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	M Disclosu Year ende 31.03.202 42 31	
Company's website www.hclindia.com.     Addronal disclosures as per Regulation 52(4) of S     Requirements) Regulations, 2015:     P A R T I C U LA R S     Operating margin (%)     Wet Profit: margin (%)     Bad debts to Account receivable ratio (%) (not     annullized) Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized)	ecurities and 31.12.2023 36% 28%	Exchange I 2009.2023 34% 25%	Board of Ind 31.12.2022 37% 27%	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35% 27% - 62.98	2bligations ar 31.12.2022 43% 31% - 46.15	nd Disclosu Year ende 31.03.202 42 31 31 62.	
Company's website www.hzlindia.com. Addutional disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS Operating margin (%) Net Profit margin (%) Bad dabto A Count receivable ratio (%) (not annualized) Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized) Inventory Turnover ratio (in times) (not annualized)	ecurities and 31.12.2023 36% 28% 	2009-2023 30.09.2023 34% 25% 22.79	Board of Ind 31.12.2022 37% 27% - 20.59	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35% 27% - 62.98	2bligations ar 31.12.2022 43% 31% - 46.15	M Disclosu Year ende 31.03.202 42 31 62. 8.0	
Company's websile www.hclindia.com. Addutonal disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS Operating margin (%) Bad debts to Account receivable ratio (%) (not nnuslized) Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized) Dettor Turnover ratio (in times) (not annualized) Current Ratio (in times)	ecurities and ( 31.12.2023 36% 28% - 21.53 1.99	2000 Exchange 1 2000 2023 34% 25% 22.79 2.01	Board of Ine 31.12.2022 37% 27% 20.59 1.89	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35% 27% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2bligations an ths ended 31.12.2022 43% 31% - 46.15 6.41	Year ende           31.03.202           42           31           62.3           8.4           0.5	
format of the unadided Financial Results is available Company's website www.hinkinoi.com. Additional disclosures as per Regulation 52(4) of S Requirements) Regulations, 2015: PARTICULARS Operating margin (%) Bad debts to Account receivable ratio (%) (not annualized) Debtor Tumover ratio (in times) (not annualized) Inventory Tumover ratio (in times) (not annualized) Current Ratio (in times) Current Ratio (in times) Carrent Liability Ratio (in times)	ecurities and 31.12.2023 36% 28% - 21.53 1.99 1.12	22.79 2.01 1.12	Board of In: 31.12.2022 37% 27% 	dia (Listing C Nine Mon 31.12.2023 35% 27% 62.98 6.03 1.12 0.54	2bligations at ths ended 31.12.2022 43% 31% 46.15 6.41 2.37 0.59	nd Disclosu Year ende	

note: ::-auccion is scheduled on 2 days for separate block of assets as mentioned bel <u>Bith February 2024</u>; E-aucton platform shall be opened for bidding process to Biock of Assets-Bith February 2024; E-aucton platform shall be opened for bidding process for Biock of A Assets-3 and Biock of Assets - Annyl / Liquidor does not receive successful bid for Biock of Petruary 2024. How to be the successful bid for Biock of Hearary 2024 subject to lutriment of all other conclusions netwarks for that particular block of assets. Block of Assets-1: INR 140 Corces (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & 6 Block of Assets-2: INR 50 corces (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & 6 Block of Assets-4: INR 50 corces (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & 6 Block of Assets-4: INR 45 corces (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & 6 Block of Assets-4: INR 45 corces (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & 6 Reserve Price (INR) For Block of Assets- 1: Monday, 19th February 2024 from 10:30 AM till 05:30 PM For rest of Block of Assets: Tuesday, 20th February 2024 from 10:30 AM till 05:30 PM Latt defe of Euler 2014 February 2024 Binder of Euler 2014 February 2024 Binder of Euler 2014 February 2024 Binder of Euler 2014 February 2024. Binder of Euler 2014 February 2024. Euler 2014 February 2024. Euler 2014 February 2024. (Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-PC

E-Auction: C&C Constructions Limited (in Liquidation) (CIN: L45201DL1996PLC080401)

# Latest X-ray to ease passenger check-in: Noida airport CEO 'Additional 3,418 hectares to be acquired in 6 mths'

DEEPAK PATEL Hyderabad, 19 January

Interest of the second state of the second sta

uids," he stated.

The technology that is present in most Indian airports takes two X-rays



DEEPAK PATEL The acquisition of an additional The acquisition of an additional 3,4(8) hectares of land in the northern and southern parts of the proposed Noida International Airport for its future expansion will be completed in six months, Shailendra Bhatia, Uttar Pradesh government's Nodal Officer at Noida International Airport

Limited (NIAL), said on Friday

liquid items in a separate tray. However, the CT X-ray machines take a 3D picture, so that is not need-d. schnellmann clarified that not all security lanes will have the CT X-ray machines. "Not all of them. But the majority of the pas-sengers will be able to benefit from this technology

WE WILL BE ABLE TO OFFER THE NEWEST SECURITY SCREEN TECHNOLOGIES (TO CHECK THE HAND BAGGAGE IN THE SECURITY LANES). WE HAVE THESE COMPUTER TOMOGRAPHY (CT) X-RAY MACHINES...THE MAJORITY OF THE PASSENGERS WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THIS TECHNOLOGY

CHRISTOPH SCHNELLMANN Chief Executive Officer, Noida International Airport Limited

plemented by possible further orders by other Indian carriers,

an order for 470 planes in February last year with Airbus and Boeing, the Tata-run airline had an option to order 370 more

When Air India had placed

The Zurich Airport - controlled NIAL is currently developing the Noida International Airport on the 1,334 hectares that were leased to it by the UP government in 2021. The 1,334-hectare land will be developed in four phases and the or portain the portain the portain the portain the developed in four phases and have two runways. The acquisition cost for this land was ₹4,326 crore. The first construction phase is expected to be over by the end of this year and the first commercial the particular phase area in the second to participate the phase of the p flight is expected to operate in

2024. "The 1,365 hectares of additional land is being acquired on the northern side. On the on the northern side. On the southern side, we are acquiring 2,033-hectare land, " Bhatia, Iod *Business Standard* at Wings India Summit 2024. The additional land will be used to develop other three more runways and hubs for aviation-related services. He said the acquisition of the land in the northern area will be completed son. completed soon.

and we will successively increase that, if needed,' he added

and we wan successively increase that, in necessi-he added. Among india's network of airports, a clash has already been foretoid between a newbie in Jawar, Noida, and the veteran in neighbouring Delhi. On January 3, aviation consultancy firm Capa India said competition between the two airports is expected to be intense and could play out even before the airport in Jawar begins operations this year. "Currently, the value-added tax (VAT) on avi-ation turbine fuel (ATP) for domestic services is 25 per cent at Dolin airport. This will only be 4 per cent at Noida airport. This will have a bearing on capacity allocation (by airlines) and expansion," Capa India's report stated.

nstitutes about 40 per cent of an airline's costs in India.

-----

956

1

Aircraft on order Total

204

Menor OF

Tota 612 242

20

Air India Akasa Air IndiGo Air India Group Akasa Air

# Airlines may order 380 planes by March '25: Capa

does

#### DEEPAK PATEI Hyderabad, 19 January

Indian carriers, which currently

Indian carriers, which currently have an order book of 1,618 planes, could end up ordering about 380 more aircraft by March next year. The additional aircraft will cater to the high air traffic demand domestically and inter-nationally, aviation consultancy firm Capa India said on Friday. The new onlers are soine to The new orders are going to come from Air India converting some of its 370 options to a firm order for every few months, sup-

aircraft. "Indian airlines curr have an order book of clo 1,620 aircraft (after Thurs Akasa air order, but exclu Go First and SpiceJet orr Divide growth of a size too This is expected to rise to a 2,000 aircraft by March 202 added.

it said

#### Zee shares fall 5% on reports of Sony merger deal collapse

Shares of Zee Entertainment Enterprises fell 5.1 per cent on Friday following media reports that the company's reports that the company's merger transaction with Sony India was set to col-lapse in the weekend. Zee's shares closed at 2235.5 a share on Friday with a mar-ket valuation of 22,620 corre. The market valuation of Zee has dropped by 30 per cent or 73,759 crore since the deal was first announced on 9. Sentember 2021

deal was first announced on 9 September, 2021. However, in a late evening statement to the stock exchanges, Zee said it is negotiating with Sony, extension of the deadline for completing the merger deal "by a reasonable period of

by a reasonable period of time." Zee said it is committed to the merger with Sony and continuing to work towards a successful closure of the transaction and is engaging in good faith negotiations with Sony. Both Sony Group Corporation at Tokyo and Zee did not comment on Friday. DEV CHATTEREE

#### Ather Energy to launch EV 'Rizta'

Ather Energy, the Bangalore-based electric vehicle manufacturer, on Friday announced the upcoming launch of its new family-oriented electric scotter, Rizta.

scooter, 'Rizta'. Rizta embodies a new direction for Ather, catering specifically to families' needs as opposed to the pre-vious focus on sporty and youthful models like the 450 Series.

The announcement was and by CEO Tarun Mehta on X. Mehta emphasised, unlike its sportier predeces-sors, the Rizta is expected to be larger, more practical and packed with features and packed with designed to prioriti fort and safety. AN ANIALISINGH

aced es in	last year.	1. 14		T
irbus irlinc	SpiceJet, which recently raised money from more than	FLEE	T CHEC	K
more ently se to day's iding	60 investors, has been facing financial troubles for the last several quarters. Capa India said that in 2023, Indian airlines ordered more aircraft than those from any oth-	350	Aircrat fleet in D	
lers). ibout 25," it	er country. "And, the total order book for Western aircraft is second only to the United States," he added.	IndiGo Source: Ca	Air India Group pa India	,
Н	INDUSTAN ZINC	C LIN	IITE	D

The figure of 1,618 aircraft es not include Go First

Go First went insolvent in Mar

es not include Go First ause of "uncertainty, it said.

****	HINDUSTAN ZINC LIMITED     Regd Office : Yashad Bhavan, UDAIPUR-313 004     PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzindia.com     HINDUSTAN ZINC     Zince & silver of India								
STAT	STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2023								
					(₹	in Crore, exc	ept as stated)		
	PARTICULARS	(	Quarter ende	d	Nine Mon	ths ended	Year ended		
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from operations	7,606	7,014	8,214	22,184	26,614	35,477		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288		
	Not Brofit for the period before Tax (after Exceptional								

		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	7,606	7,014	8,214	22,184	26,614	35,477
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,028	1,729	2,156	5,721	7,928	10,511
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,022	1,688	2,134	5,703	8,002	10,552
6	Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845	845
7	Reserves	12,298	12,810	26,016	12,298	26,016	12,087
8	Net Worth	13,143	13,655	26,861	13,143	26,861	12,932
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	10,111	11,324	5,104	10,111	5,104	11,841
10	Debt Equity Ratio	0.77	0.83	0.19	0.77	0.19	0.92
	Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations						
11	Basic :	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88
	Diluted:	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88
12	Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	1.34	67.34	3.61	15.85	17.65
13	Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	13.89	67.34	15.06	95.45	60.07

NOTES : 1) The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited("the Company") and its subsidiaries ("the Group") for the quarter and n months ended December 31, 2023 have been reviewed by Audit & Risk Management Committee and approved by the Board Directors in its meeting held on January 19, 2024 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of

2) Key Standalone Financial information:

	Quarter ended			Nine Months ended		
31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
7,615	7,023	8,215	22,207	26,615	35,480	
2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,297	
2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,297	
2,038	1,737	2,157	5,745	7,931	10,520	
	31.12.2023 Unaudited 7,615 2,678 2,678	31.12.2023         30.09.2023           Unaudited         Unaudited           7,615         7,023           2,678         2,313           2,678         2,313	31.12.2023         30.09.2023         31.12.2022           Unaudited         Unaudited         Unaudited           7,615         7,023         8,215           2,678         2,313         3,187           2,678         2,313         3,187	31.12.2023         30.99.2023         31.12.2023         31.12.2023           Unaudited         Unaudited         Unaudited         Unaudited           7,615         7,023         8,215         22,207           2,678         2,313         3,187         7,667           2,678         2,314         3,187         7,607	31.12.2023         30.09.2023         31.12.2023         31.12.2023           Unaudited         Unaudited         Unaudited         Unaudited           7.615         7.023         8.215         22,007         26,615           2,676         2,313         3,187         7,002         11.766           2,678         2,313         3,187         7,007         11,766	

The above is an extract of the detailed format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results field with the Stockard Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results is available on the Exchange websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Comman's website www.briefinde.com.

	PARTICULARS		Quarter ende		Nine Mon	Year ended	
	FARTICOLARS	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
(i)	Operating margin (%)	36%	34%	37%	35%	43%	429
(ii)	Net Profit margin (%)	28%	25%	27%	27%	31%	319
(iii)	Bad debts to Account receivable ratio (%) (not annualized)	-	-		-	-	
(iv)	Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized)	21.53	22.79	20.59	62.98	46.15	62.2
(v)	Inventory Turnover ratio (in times) (not annualized)	1.99	2.01	1.89	6.03	6.41	8.6
(vi)	Current Ratio (in times)	1.12	1.12	2.37	1.12	2.37	0.9
(vii)	Current Liability Ratio (in times)	0.54	0.58	0.59	0.54	0.59	0.6
viii)	Total Debts to Total Assets (in times)	0.30	0.32	0.13	0.30	0.13	0.3
(ix)	Long Term Debt to Working Capital (in times)	4.44	3.62	0.19	4.44	0.19	*
Date	+* Net working capital is negative  : January 19, 2024 -: Udajour		()	0.19	By Orde Arun Mis	r of the Boa	ard

## **COMPANIES 5**

			uarter & N			(Rs	. In Lakhs
Sr	Particulars	Thre 31.12.2023	e Month Ende	d 30.09.2023		nth Ended	Year Ended 31 03 2022
No	Particulars	(UnAudited)					Audited
1	Total income from operations (net)	6.27	0.25	0.09	6.69	2.53	18.01
2	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (Before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(9.56)	(14.93)	(15.56)	(51.96)	(46.34)	(40.25)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(9.56)	(14.93)	(15.56)	(51.96)	(46.34)	(40.25)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(9.56)	(14.93)	(15.56)	(51.96)	(46.34)	(30.21)
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising profit or (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(9.56)	(14.93)	(15.56)	(51.96)	(46.34)	(30.21)
6	Equity Share Capital (Face Value RS. 10/- per share)*	1,619.13	415.73	1,619.13	1,619.13	415.73	826.08
7	Earnings per share (Before exceptional items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)						
	(a) Basic	(0.01)	(0.36)	(0.01)	(0.96)	(1.11)	(0.78)
8	(b) Diluted Earnings per share (After exceptional items) (of Rs, 10/- each) (not annualised)	(0.01)	(0.36)	(0.01)	(0.96)	(6.11)	(0.78)
	(a) Basic (b) Diluted	(0.01) (0.01)	(0.36) (0.36)	(0.01) (0.01)	(0.96) (0.96)	(1.11) (1.11)	(0.78) (0.78)
8 Not	(b) Diluted Earnings per share (After exceptional items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) (a) Basic	(0.01) (0.01) (0.01) d format of the	(0.36) (0.36) (0.36) te Third Qua tion 33 of	(0.01) (0.01) (0.01) inter and Nin the SEBI	(0.96) (0.96) (0.96) e month en Listing ob	(1.11) (1.11) (1.11) ded on 31st ligations &	(0.71 (0.71 (0.71 Decemt Disclos

## Infosys

Infosys Limited Corporate Identity Number (CIN): L85110KA1981PLC013115 gd. Office: IEctronics City, Hours Road, Bengaluru - 560 100. Phone: 91 80 2852 0261, Fax: 91 80 2852 0362 investors@infosys.com

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE OF POSTAL BALLOT Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the 'Act'), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the 'Management Rules'), Ceneral Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 73/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (Lising Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the 'LODR Regulations') and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory) rodification(s) corre-enactment(s) threed, for the fiblowing special resolutions by way of remote e-voting (e-voting') roccess: emote e-voting ("e-voting") process

SI. No. Description of Special Resolutions

Appointment of Nitin Keshav Paranjpe (DIN: 00045204) as an Independent Director 1 2 Re-appointment of Chitra Nayak (DIN: 09101763) as an Independent Director

Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic cop of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Friday, January 19, 2024, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / depository participant(s) as on January 17, 2024 ("Cut-off Date").

The Postal Ballot Notice was also provided to Deutsche Bank Trust Company Americas, as ADR depositany, who will use the same to prepare a voling instruction card to be sent, together with the Postal Ballot Notice, to (i) registered holders of American Depositary Receipts evidencing American Depositary Shares (ADSs<sup>2</sup>) with underlying equity shares of the Company, and (ii) the mailing agent for the Depository Trust Company (DTC<sup>2</sup>), who will then mail their voling instruction card, together with the Postal Ballot Notice, to the holders of ADSs who hold their ADSs through a bank, broker or other nominee in DTC.

The said Notice is also available on the website of the Company: www.infosys.com, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): www.bseindia.com and National Stock Exchange of India United ("NBE"): www.nseinda.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoling.nsdl.com.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting monoses. The voling rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares on the Company held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as on the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as on the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as the Cut-off Date shall read the Postal Ballot Notice for information purposes only the Domain as the Cut-off Date shall read the Dott Date shall be the Dott Date shall be the Date Shallot Notice for information purposes only the Dott Date shall read the Date Shallot Notice for information purposes only the Date Shallot Date shall read the Dott Date Shallot Notice for information purposes only the Date Shallot Date Shallot Date Shallot Notice for information purposes only the Date Shallot Date Shallot Date Shallot Date Shallot Notice for information purposes only the Date Shallot The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") fo

the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting fac during the following period:

Commencement of e-voting period	9.00 a.m. IST on Monday, January 22, 2024			
Conclusion of e-voting period 5.00 p.m. IST on Tuesday, February 20, 2024				
Cut-off date for eligibility to vote Wednesday, January 17, 2024				
The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after 5.00 p.m. IST on Tuesday February 20, 2024.				

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same i respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited either by email to einward ris@kfintech.con or by post to Selenium Tower B, Piol 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampaliy Mandal, Hyderabad – 500032.

The Board has appointed Hemanth, Holla & Co., (FCS 6374 and CP No. 6519) Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting proces a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voling user manual for Shareholders available at the download sectio of www.evoling.sdl.com or call: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request a evoling@nsdl.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within 48 hours from the conclusion of e-voting i.e. 5.00 PM IST on Thursday, February 22, 2024, and will also be displayed on the Company's website (https://www.infosys.com/investors/shareholder-services/postal-ballot.html) and on the website of NSDL (https://www.eouling.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent.

For any queries or grievances pertaining to e-voting, shareholders are requested to contact Shobha Anand, Deputy Vice President, Kfin Technologies Limited Selenium Tower B, Piol 31 8.2; Ennaical District Nanakramyuda, Seriingampally Mandal, Hyderabad – 500032 Contact details: Email id- shobha anand@kfintech.com; contact number – 1800-309-4001; Shareholders can also contact Amit Vishal, Deputy Vice President or Palav Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, AVing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, India. Contact details: evoting@nsdl.com Contact number- 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

January 19, 2024 Bengaluru, India

) and 022 - 2499 7000.
For Infosys Limited Sd/-
A.G.S. Manikantha
Company Secretary



Молday, Jan 22 2024	
≡ HOME   January 20, 2024 🛱   Udaipur City ©   9: PAGE 📶   Ϥ Crop&Share   👪   Ϙ <sup>0</sup> ℚ <sup>1</sup> ℚ <sup>2</sup>	
<page-header><page-header><page-header><section-header></section-header></page-header></page-header></page-header>	
archard dreifer dam 1 den Barry 4 cut. 400000, 400007, egent - siz 5000000.1 den Barry 9 2024	



### शक्तावत की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आज छह दिन में अवैध खनन के 17 केस दर्ज, 19.71 लाख का जुर्माना, 10 लाख वसूले

**सिटी रिपोर्टर** | उदयपुर

दैतिक भारकर

मख्य सचिव के आदेश पर सक्रिय खान, भविज्ञान विभाग और ुख्य रोजिय के जीवरों के राजिय खान, प्रावधानिय का जाते. तुलस ने शुक्रवार को अवीध खनन, निर्मामन, भंडारण को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध खनन से जुड़े दो और खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त किया। इनमें से दो मामलों में खनन विभाग ने 2 लाख, 63 हजार, 700 रुपए का जुमांना

वारी ने मार्ग प्रकार के प्रकार भए बसूले गए। बहीं, जिले में छह दिनों में अवैध खनन, निर्ममन, भंडारण को लेकर अब तक 17 केस दर्ज किए गए, जिसमें आरोपियों पर 19.71 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें से कहीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है। शेष राशि को विभाग ने तीन माह में वसूलने का लक्ष्य रखा है।

निर्माणाधीन मकान से

४ लाख का वायर चोरी

**उदयपुर** अंनामाता थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अज्ञात चोर के

खिलाफ निर्माणाधीन मकान से वायर चोरी करने का मामला दर्ज

वायर चारा करने का मामला देज करवाया है। पुलिस के मुताबिक न्यू अहिंसापुरी, फतहपुरा निवासी कुलदीप प्टेल ने मामला दर्ज

जाहलापुरा, फराहपुरा ।नपाला कुलदीप पटेल ने मामला दर्ज करवाया कि पूंजावटी, आरके सर्कल के पास उसका नया मकान

बन रहा है। 17 जनवरी को रात भग रहा हो 17 जनवर्त्त पत्र रहा में चोर करीब 4 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक वायर चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



डंपर को पकड़ा। कार्रवाई कर जुर्माना बनाया गया। डंपर भल्लों का गढाँ स्थित बनायां गया। डपर भल्ला को गुढ़ा स्थित वन क्षेत्र से मैसनरी स्टोन लेकर जा रहा था। एक अन्य मामले में उबांक पुलिस ने खादरा क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा डुआ करीब 4 मैट्रिक टटा अवैध मेसनरे स्टोन बयारद किया। मौके से चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने खादरा स्थित सरकारी खाते को जमीन से अवैध मैसनरी स्टोन लेकर आने की बात कबूल की है।

#### **उदयपुर**|राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव स्व. गजेंद्र सिंह शक्तावत की तृतीय पुण्यतिथि पर शक्तावत की तृतीय पुण्यतिथि पर शनिवार को मनाई जाएगी। इस पर मौके भींडर

उदयपुर, शनिवार २० जनवरी, २०२४ 05

भर भींडर रामपोल बस रटैंड स्थित गुलाब सिंह शक्तावत मूर्ति स्थल पर रक्तदान जिन्गि -गुराजि सिंह रोफाविस पूरी स्वरा पर रक्तदान शिविर लगेगा। इसका समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा।

कार्यक्रम में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे एम्बी तभा दापहर 1 बज एमबा कॉलेज ग्राउंड उदयपुर में गजेंद्र सिंह शक्तावत प्रवेश द्वार का उद्याटन एआईसीसी महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलूट करेंगे। इस दौरान



JOCKEY

FACTORY

UPTO

ONDS

OFF

आयोजन सांचर्य ३०. मामराज पटल न बताया क उद्धाटन समारोह के मुख्य अतिथि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो. कैलाश सोडाणी और विशिष्ट अतिथि राजस्थान् उच्च शिक्षा बीच खेला गया। उद्घाटन मैच के साथ चार अलग-अलग कोर्ट पर मैच शुरू हुए। इस टूर्नामेंट में वेस्ट जोन की कुल् 64 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इन भा जुरु( 64 पर पांश्वारोप का दान नाग ( र स्वा ह) हुन टीमों को चार अलग-अलग भागों में बांटा गया है। यह मैच 23 जनवरी तक चलेंगे। शनिवार को सेकंड राउंड होगा और दूसरे मैच होंगे। 22 व 23 जनवरी को चारों पुल की विजेता टीमों के बीच लीग मैच होंगे।

साडाणा आरं विषाशट आतीथ राजस्थान उच्च राक्षा एपिरव के उपाध्यक प्रो. डोरेस, चंड्रावत थे। अञ्चक्षता सुविवि की कुलपति प्रो. सुनीता मिशा ने की। संचालन डॉ. हैसराज सिंत चौधरी ने किया। आयोजन अव्यक्ष प्रो. नीराज शर्मा ने बताया कि पूल पट का प्रत्ना सेच यूनिवसिंटी सतना ( मप्र) और वनस्थली विद्यापीठ के प्रिंसिपल ने कड्जा हटवाया, इसलिए सफाई अभियान कल चलेगा

उव्यपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (सुविधि) को मेञवानी में शुक्रवार को महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालयीन बेस्ट जोन हैंडवॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आगाज हुआ। आयोजन सचिव डॉ. भीमयुज पटेल ने बताया कि



र्शवर - 15/146), उदवपुर में स्थित था। कुमार, नरेन्द्र कुमार मोरायत जाति जेन बे तति जैन के पंच में समीलानामा दिनांक 25-06-वसीपत किया है। श्रीमती तोगा बई का दिनांक 05-9 को एवं उनके पति श्री मोग्रेसिलन जी का दिनांक 1959 को देहास्वान हो गया है और उत्तर महान पंग 1959 को देहास्वान हो गया है और उत्तर महान पंग

मोट् रूपल गौर सांग प्रसिद्ध को लिखा में के किया के मार्करणवा रिवर 5-0-2012 में प्रांत्म के कार्यवा कर रहे है। सा वज्जर वी हवा थे प्रवार हिमा है किया के प्रसार कि किया के प्रार्थन है के तो आज प्रसार क्रेसन के 10 रिवर के कटराय प्रतार्थन के आज प्रसार क्रेसन के 10 रिवर के कटराय प्रतार्थन के आज प्रसार के प्रतार के 10 रिवर के कटराय प्रतार्थन के आज के 10 रिवर के 10 रिवर के कटराय प्रतार्थन के आज के 10 रिवर के 10 रिवर के कटराय प्रतार के आज के 10 रिवर के 10 रिवर के 10 रिवर के 10 रिवर प्रदान के 10 रिवर के 10 रिवर के 10 रिवर के 10 रिवर प्रदान के 10 रिवर के 10 रिवर प्रतार के 10 रिवर के 10

Venue In Udaipur **Hotel Vishnupriya** 9 Garden Road **-** 313001 Near Gulab Bagh

अशंका वक्सी के पास, उदयपुर		og og sinjanging metale
HINDUSTAN ZINC LIMITED Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004 BX No. 0294-6004000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com	(EZ)	HINDUSTAN ZINC Zinc & Silver of India
SOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MON	THS ENDE	31 DECEMBER, 2023

	PARTICULARS	Quarter ended			Nine Mon	Year ended	
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
ι	Total income from operations	7,606	7,014	8,214	22,184	26,614	35,477
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288
	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,669	2,305	3,186	7,584	11,783	15,288
	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,028	1,729	2,156	5,721	7,928	10,511
	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,022	1,688	2,134	5,703	8,002	10,552
5	Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845	845
r	Reserves	12,298	12,810	26,016	12,298	26,016	12,087
3	Net Worth	13,143	13,655	26,861	13,143	26,861	12,932
)	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	10,111	11,324	5,104	10,111	5,104	11,841
)	Debt Equity Ratio	0.77	0.83	0.19	0.77	0.19	0.92
	Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations						
L	Basic :	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88
	Diluted:	4.80	4.09	5.10	13.54	18.76	24.88
2	Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	1.34	67.34	3.61	15.85	17.65
3	Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	15.32	13.89	67.34	15.06	95.45	60.07

NOTES: The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited ("the Company") and its subsidiaries ("the Group") for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed by Audit & Risk Management Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on January 19, 2024 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company.

#### 2) K

PARTICULARS	Quarter ended			Nine Mont	Vear ended	
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	7,615	7,023	8,215	22,207	26,615	35,480
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,297
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,678	2,313	3,187	7,607	11,786	15,297
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,038	1,737	2,157	5,745	7,931	10,520

n 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligatio ancial Results is available on the Exchange 2015. The full changes under Regulatio mat of the unaudited Fin lisclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligati ts) Regulations, 2015:

Nine Months ended Year ended

	PARTICULARS	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
(i)	Operating margin (%)	36%	34%	37%	35%	43%	42%
(ii)	Net Profit margin (%)	28%	25%	27%	27%	31%	31%
(iii)	Bad debts to Account receivable ratio (%) (not annualized)	-			-		-
(iv)	Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized)	21.53	22.79	20.59	62.98	46.15	62.22
(v)	Inventory Turnover ratio (in times) (not annualized)	1.99	2.01	1.89	6.03	6.41	8.65
(vi)	Current Ratio (in times)	1.12	1.12	2.37	1.12	2.37	0.96
(vii)	Current Liability Ratio (in times)	0.54	0.58	0.59	0.54	0.59	0.68
(viii)	Total Debts to Total Assets (in times)	0.30	0.32	0.13	0.30	0.13	0.33
(ix)	Long Term Debt to Working Capital (in times)	4.44	3.62	0.19	4.44	0.19	**
	** Net working capital is negative By Order of the Board Date: January 19, 2024 Place: Udaipur CEO & Whole-time Director						



r without any prior notice a tk lasts 4) Images for rep mety recresents the max





उदयपुर| शहर से सटी बेदला ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकुर यहां के प्रिंसिप्ल पर लगाए गए छेडछाड के आरोपों को गलत बताया है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल महिपाल सिंह चारण ने तो बेदला के राजकीय उच्च माध्यमिक बद्शा के राजकाव उच्च माण्यामक विद्यालय राजमहल की बेशकीमती जमीन को कब्जेधारियों से मुक्त कराया है। इसके लिए उनका

#### स्कुल नेशनल जुडो में पदक विजेता मुकेश और खुशी का स्वागत



उदयपुर| स्कूल नेशनल अंडर-19 जूडो प्रतियोगिता में उदयपुर के मुकेश मीणा ने स्वर्ण और खुशी पँवार ने कांस्य पदक जीतकर पवार ने कास्य पदक जातकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह प्रतिवोशिता श्लेगंगा नगर में आयोत्तित डूई थी। शुक्रवार को उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दोनों खिलाडियों का खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। शारीर्तिक शिक्षक किशन सोनी वे लगण कि स्कल्य नेप्रवल

शागीरक शिक्षक किशन सोनी ने बताया कि स्कूल नेशनल अंडर-19 में उदयपुर में पहली बार एक छोटे से गांव पिपलिया के मुकेश मोणा ने स्वर्ण पदक और अंबामाता की स्टेन वाली सफाई कर्मी की बेटी खुशो पंतार ने कांट्य पदक अपने नाम किया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जुड़ो जिल्का उपलिब तेन ने जिल्ला इन दाना हा खिला।इया न जुडा प्रशिक्षक सुशील सेन से प्रशिक्षण प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर युगाल किशोर शर्मा, दीपक राणावत, विक्रम सिंह वाघेला, पल्लवी चोबिस, सिंह वाबला, पल्लवा चाविसा, अनु जादू, राजस्थान विद्यापीठ के शारीरिक शिक्षा निदेशक डॉ. दिलीप सिंह चौहान्, सवीना नेला सरापंच ईश्वर गमेती, सीसारमा सरपंच पायल बंशीलाल गमेती, भाजपा नांदेश्वर मंडल अध्यक्ष दिनेश गुर्जर आदि मौजूद रहे।

#### नासिर राष्ट्रीय संगठन सचिव व मंसूरी प्रदेश महासचिव बने



उदयपुरां मुस्लिम महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्षतां में एवं पार्षद नासिर खान को राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं पार्षद दिवयनतुरूला मंसूरी को प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके प्र गण्टीय स्वयम्पतित गठनोपेट पर राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट पर राष्ट्राय महासाचाव एडवाकट केआर सिद्दीकी, राष्ट्रीय सचिव इरफान मुल्तानी, प्रदेश अध्यक्ष हनीूफ खान, प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली, उदयपुर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट तौकीर रजा आदि मौजूद रहे।

सरकारी स्तर पर सम्मान होना सरकार। स्तर पर सम्मान होना चाहिए। 7 करोड़ की इस जमीन पर 7 साल से कब्जा था। इसमें एक टेंट्र व्यवसायी और पूर्व् सरपंच नरेश प्रजापत शामिल थे। इनके खिलाफ सुखेर थाने में प्रिंसिपल ने केस भी दर्ज कराया है। इस मुद्दे से

vedanta

1)

STATEMENT OF UNAUDITED CONS

अपना हाथ पीछे खींचने के लिए जनना हाज नाम्न खापन कारोप उन पर अलग-अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। इसमें यह झूठा मामला भी दर्ज कराया गया।